



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2002]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 17, 2011/आश्विन 25, 1933

No. 2002]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2011/ASVINA 25, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2011

सं. 80 (आर ई-2010)/2009-2014

विषय : रेडियोइम्यूनोएस्सै किटों (चिकित्सा उपकरण जिनमें रेडियो धर्मी समस्थानिक निहित हों) का आयात।

का.आ. 2395(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एचएस) वर्गीकरणों की अनुसूची 1 (आयात) में निम्नलिखित संशोधन करती है :

2. निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरणों के अध्याय-28 की एंजिम कोड 284 440 00 के लिए मौजूदा नीति (इस संशोधन से पहले) नीचे दी गई हैं (पहले की नीति गत शर्तें) :

एंजिम कोड	मद का विवरण	नीति	नीति की शर्तें
2844 40 00	उप-शीर्ष सं. 2844 10, 2844 20 या 2844 30 से भिन्न प्रतिबन्धित रेडियो धर्मी तत्व और समस्थानिक और यौगिक मिश्र धातुएँ, परिक्षेपण (सर्मेट सहित) चीनी मिट्टी के उत्पाद और ऐसे मिश्रण जिनमें ये तत्व, समस्थानिक या यौगिक हैं; रेडियो धर्मी अवशिष्ट।		परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और उसके अधीन अधिनियमों के अध्वधीन आयात।

3. संशोधन के बाद प्रविष्टि निम्नानुसार पढ़ी जाएगी (संशोधित नीति की शर्तें) :

एग्जिम कोड	मद का विवरण	नीति	नीति की शर्तें
2844 40 00	उप शीर्ष सं. 2844 10, 2844 20 या 2844 30 से भिन्न रेडियो धर्मी तत्व और समस्थानिक और यौगिक मिश्र धातुएँ, परिक्षेपण (सर्जेट सहित) चीनी मिट्टी के उत्पाद और ऐसे मिश्रण जिनमें ये तत्व, समस्थानिक या यौगिक हैं; रेडियो धर्मी अवशिष्ट ।	प्रतिबन्धित	परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और उसके अधीन अधिनियमों के अध्याधीन आयात। तथापि, आईआर बी की पूर्व अनुमति के अधीन मनुष्यों या पशुओं में रोग अथवा विकारों के निदान के लिए अभिप्रेत रेडियोइम्यूनोएस्सै किटों का आयात 'मुक्त' है ।

4. इस अधिसूचना का प्रभाव :—

“रेडियोइम्यूनोएस्सै किटों” (चिकित्सा उपकरण जिनमें रेडियो धर्मी समस्थानिक निहित हों) के आयात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

[फा. सं. 01/89/180/0053/ए एम-01/पीसी-2(ए)]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2011

No. 80 (RE-2010)/2009-2014

Subject : Import of Radioimmunoassay kits (Medical equipments containing radioactive isotopes).

S.O. 2395(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby makes the following amendments in the Schedule I (Imports) of the ITC (HS) Classifications of Export and Import Items:

2. Existing policy (prior to this amendment), for the Exim Code 2844 40 00 of Chapter 28 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items is extracted below (earlier policy conditions) :

Exim Code	Item Description	Policy	Policy Conditions
2844 40 00	Radioactive elements and isotopes and compounds other than those of sub-headings 2844 10, 2844 20 or 2844 30; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products amixtures containing these elements, isotopes or compounds; radioactive residues.	Restricted	Import subject to Atomic Energy Act, 1962 and Rules thereunder

3. After amendment the entry would read as below (amended policy conditions) :

Exim Code	Item Description	Policy	Policy Conditions
2844 40 00	Radioactive elements and isotopes and compounds other than those of sub-headings 2844 10, 2844 20 or 2844 30; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products amixtures containing these elements, isotopes or compounds; radioactive residues.	Restricted	Import subject to Atomic Energy Act, 1962 and Rules thereunder. However, import of Radio-immunoassay kits intended for the diagnosis of disease or disorders in human beings or animals is 'Free' subject to prior permission of AERB.

4. The effect of this Notification :—

The import of “Radioimmunoassay kits” (Medical equipments containing radioactive isotopes) will not require an import authorization from DGFT.

[F.No. 01/89/180/0053/AM-01/PC-2(A)]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade